



## भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{4}{8} + \frac{6}{8} =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{7}{3} =$$

$$1\frac{2}{4} + \frac{1}{4} =$$

$$\frac{4}{9} + \frac{7}{9} =$$

$$\frac{7}{6} + \frac{4}{6} =$$

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{8} =$$

$$\frac{2}{7} + \frac{2}{7} =$$

$$1\frac{2}{5} + \frac{2}{5} =$$

$$1\frac{2}{4} + \frac{3}{4} =$$

$$1\frac{2}{3} + 1\frac{1}{3} =$$



## भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{4}{8} + \frac{6}{8} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{7}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

$$1\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$$

$$\frac{4}{9} + \frac{7}{9} = \frac{11}{9} = 1\frac{2}{9}$$

$$\frac{7}{6} + \frac{4}{6} = \frac{11}{6} = 1\frac{5}{6}$$

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{7} + \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$$

$$1\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$$

$$1\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$

$$1\frac{2}{3} + 1\frac{1}{3} = 3$$